

Reg. Office Address:

Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan,
Maulana Azad Road, New Delhi 110001
CIN: L70101DL2005GOI132162
Website: www.hpil.co.in
Email: info@hpil.co.in, Tel: 011-23061325

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

HPIL/BS/Stx/2022-23

Dated: 06.12.2022

To,
Manager,
Listing Department
BSE Limited,
P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai: 400 001

To,
Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza", Plot No. C/1,G Block,
Bandra Complex, Bandra (E),
Mumbai -400 051

Script Code: 543242

Symbol: HEMIPROP

Dear Sir/ Ma'am,
Subject: Newspaper Advertisement

We are enclosing herewith the copies of Newspaper publication regarding intimation of 18th Annual General Meeting, Cut-off Date/ Book closure , voting period and other required information, published in Business Standard (English) Jansatta (Hindi) editions on 06th December, 2022 before sending the notices and copies of the financial statements, etc. to the shareholders, in compliance of MCA Circular, Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking you,

For *Hemisphere Properties India Limited*

Lubna
Company Secretary & Compliance Officer

Bandhan Bank
 Regd. Off.: DN 32, Sector V, Salt Lake, Kolkata - 700091
 CIN: L67190WB2014PLC204622 | Phone: 91-33-6608-0909
 Fax: 91-33-6608-0502 | Email: investor@bandhanbank.com
 Website: www.bandhanbank.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE(S)

Notice is hereby given that the under mentioned Equity Share Certificate(s) of Bandhan Bank Limited (the "Bank") has been reported as lost/misplaced/irrevocable and the registered holder(s)/Claimant(s) of the said Equity Shares have applied to the Bank to issue duplicate Share Certificate(s):

Folio No.	Name of the Shareholder(s)	No. of Shares	Distinctive Nos. To	Distinctive Nos. From	Certificate Nos.
BAN1168519	Shampa Mukherjee Kallol Mukherjee	2,272	1608808293	1608810564	1095031

Any person(s) who has/have any claim in respect of the such share certificate(s) should lodge such claim(s) in writing with necessary supporting document(s) at the office of the Bank's Registrar and Transfer Agent ("RTA"), KFin Technologies Limited (Unit: **Bandhan Bank Limited**) at Selenium Tower B, Plot Nos. 318-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad 500032, Telangana, within 15 days from the publication of this Notice, beyond which no claim(s) shall be entertained and as per the SEBI Circular dated January 25, 2022. Letter of Confirmation will be issued to the registered holder(s)/ Claimant(s). Accordingly, the original share certificate(s) shall stand cancelled.

Bandhan Bank Limited
 sd/-
 Indranil Banerjee
 Company Secretary

Place : Kolkata
 Date : December 05, 2022

VICEROY HOTELS LIMITED
 Corporate Identity Number: L55101TG1965PLC001048
 Regd. Office: Plot No.20, Sector-1, Survey No.64, 4th Floor,
 HUDA Techno Enclave, Hyderabad, Telangana - 500081
 Website : www.viceroyhotels.in, Email : secretarial.viceroy@gmail.com
 Phone No : 91-40-40349828

NOTICE OF 57TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the Fifty Seventh (57th) Annual General Meeting (AGM) of the members of Viceroy Hotels Limited ("the Company") will be held on Friday, December 30, 2022 at 03:00 P.M. IST through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means ("VC/OAVM") facility, to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM dated December 5, 2022.

The AGM will be held through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI), and other applicable circulars issued in this regard (collectively referred as "Circulars"), permitting the holding of AGM through VC/OAVM without physical presence of members at a common venue.

In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s).

If you have not registered your email address with the Company/Depository Participant(s) you may please follow below instructions for registering/updating your email addresses:

Physical Holding: Register/Update the details in prescribed ISR-1 and other relevant Form(s) with the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company, M/s Aarthi Consultants Private Limited, at aarthiconsultants@gmail.com

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details as per the process advised by your DP

Members may note that the Notice of 57th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2021-22 will be available on the Company's website at www.viceroyhotels.in and websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice of 57th AGM will also be available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses set out in the AGM Notice through remote e-voting and e-voting during the AGM. The detailed procedure of remote e-voting/e-voting during AGM by Members holding shares in Physical mode and Members who have not registered their email ID with the Company, is being provided in the AGM Notice.

For Viceroy Hotels Limited
 sd/-
Dr. Govindarajula Venkata Narasimha Rao
 Resolution Professional
 IP Registration No. IBBI/PA-003/IP-N00093/2017-18/10893

SDC Techmedia Limited
 CIN: L72900TN2008PLC067982
 Regd. Office : 33/1, Wallajah Road, Chepauk, Chennai - 600002.
 Email: info@sdcstech.in | Web: www.sdcstech.in | Tel: 044-2854 5757

NOTICE

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 27th day of December, 2022 at 12.30 PM at No.33/1, Wallajah Road, Chepauk, Chennai - 600002.

In compliance with the Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), the company on 03rd December, 2022 has sent the electronic copies of the Notice of the 14th AGM and Annual Report for Financial year 21-22 to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) as on 03rd December, 2022. All the Shareholders of the company hold shares in dematerialized mode and hence they are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Furthermore the Notice of the 14th AGM and Annual Report for Financial year 21-22 will also be made available on the Company's website, at www.sdcstech.in, stock exchange website at www.bseindia.com and on the CDSL's website, at www.evotingindia.com. Members can request for physical copy of the Annual Report along with notice by sending an e-mail to info@sdcstech.in by mentioning their Folio / DP ID and Client ID No.

Register of Members & Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 21st December, 2022 to Tuesday, 27th December, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 14th Annual General Meeting (AGM).

Further, in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management & Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 the Company is pleased to provide its members holding shares, as on the cut off date being Tuesday, 20th December, 2022 with facility of remote e-voting.

A person whose name appears in the Register of Members /Beneficial Owners as on the cut off date i.e., 20th December, 2022 shall be entitled to vote on the resolutions set out in the Notice of the AGM and he/she can exercise his/her voting rights through remote e-voting or at the AGM.

The Company has engaged services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the Authorized Agency to provide remote e-voting facilities. The remote e-voting period commences on Saturday 24th December, 2022 at 09.00 A.M and ends on Monday, 26th December, 2022 at 05.00 P.M. During this period, shareholders holding shares as on the cut off date i.e., 20th December, 2022 may cast their vote electronically. Remote e-voting shall not be allowed before/after the specified date and time. Once the vote is cast by the member, member shall not be allowed to change it subsequently.

Further, those persons who have acquired shares and have become members of the company after the dispatch of Notice and holding shares as on the cut off date may obtain the login ID and password by sending request at evoting@sdcsindia.com.

Further a facility for voting through Ballot Paper shall also be made available to members attending the AGM. However, members who have already casted their votes by e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to vote.

For any queries related to remote e-voting, members can contact the RTA of the Company, M/s. Purvasharegistry (India) Pvt. Ltd., 9 Shiv Shakti Ind.Estt., J R Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai 400 011. Email: purvashr@mtlnet.in Phone: +91-022-2301 6761 or the undersigned at the company's Address/Telephone No./Email ID from Monday to Friday between 11:00 am to 5:00 pm.

For SDC Techmedia Limited
 sd/-
Fayaz Usman Faheed
 (DIN: 00252610)
 Managing Director

Place : Chennai
 Date : 03rd December, 2022

SHARP INDIA LIMITED
 Regd Office : Gat No.686/4, Koregaon Bhima, Taluka : Shirur, Dist. Pune - 412216
 Phone No.: (02137) 670000/01/02 Fax No.: 02137- 252453
 Website : www.sharpindialimited.com | Email : chandraniil.belvalkar@sil.sharp-world.com
 CIN : L36759MH1985PLC036759

NOTICE OF 37TH AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Wednesday, 28th December 2022 at 12:00 noon (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022, 20/2020 dated May 05, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 14/2020 dated April 08, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read with SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, (collectively referred to as "relevant circulars") allowing without the physical presence of the members at common venue. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only to transact the business set out in the AGM notice.

The 37th Annual Report of the company containing notice of the 37th Annual General Meeting along with the explanatory statement, Director's Report, Auditor's Report, Audited Accounts etc. of the company for the financial year ended 31st March 2022 shall be sent by e-mail to all the members whose email addresses are registered with the Company or with their respective depository participants in accordance with relevant circulars. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule No. 20 of the Companies (Management & Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulation 2015, the items of the businesses to be transacted at the aforesaid 37th Annual General meeting of the Company be transacted by electronic voting (remote e-voting facility) through the e-voting services provided by Link Intime India Private Ltd (Insta vote).

a) The remote e-voting will commence on **Sunday, 25th December 2022 at 09:00 a.m. and ends on Tuesday, 27th December 2022 at 05:00 p.m.** IST. The e-voting module shall be disabled by Link Intime for voting thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. The company is providing the e-voting facility to all the members holding shares in physical or dematerialized form as of the **cut off date - Wednesday 21st December 2022.**

b) The members may note that a) remote e-voting module shall not be allowed beyond 5:00 p.m on 27th December 2022 and the same may be disabled by Link Intime and once the vote on a resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently, (detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the Annual General Meeting) b) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 37th AGM may participate in 37th AGM through VC/OAVM facility but will not be entitled to cast their vote again through e-voting system during 37th AGM. c) The members participating in 37th AGM and who have not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their votes through e-Voting system during 37th AGM, and d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by depositories as on the cut-off date only shall be able to avail the facility of remote e-voting, participating in the 37th AGM as well as e-voting during 37th AGM.

c) Any person who acquires Shares of the Company and become a Member of the Company after the dispatch of the 37th AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e., 21st December 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at umesh.sharma@linkintime.co.in. However if the member is already registered with Link Intime for e-voting, then existing user ID and password can be used for e-voting.

d) The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

e) Mr. Sridhar G. Mudaliar failing him Mrs. Meenakshi Deshmukh, Partners M/s. SVD & Associates, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and caste vote through the e-voting system during the meeting in fair and transparent manner.

f) A copy of the 37th AGM Notice and Annual Report for Financial Year 2021-22 is available on the website of the Company at www.sharpindialimited.com and on the website of stock exchange at www.bseindia.com and on the website of Link Intime www.linkintime.co.in.

g) In case the physical shareholder has not registered his / her / their email address with the Company / its RTA and not updated the Bank Account details, the following instructions to be followed:

- The shareholder may please forward a letter duly signed by him / her containing email ID, mobile number and Bank Account details along with self-attested copies of PAN and Aadhar Cards and cancelled cheque leaf of his / her bank account. In case cheque does not contain sole / first shareholder's pre-printed name then also attach 1st page of bank passbook.
- In case of Shares held in Dematerialised (Demat) mode, the shareholder may please contact their Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

In case of any queries regarding remote e-voting, related to login through Depository i.e. NSDL/CDSL, they may contact the respective helpdesk given below:

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED
 (A Government of India Enterprise)
 Reg. Office Address: Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan, Delhi, 110001
 Azad Road New Maunla, 110001
 CIN: L70101DL2005GOI132162
 Website: www.hpil.co.in
 Email: info@hpil.co.in

18TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

In view of prevailing Covid-19 pandemic and as per MCA and SEBI circulars of holding of AGM through VC/OAVM, notice is hereby given that the **18th Annual General Meeting (AGM) of the members of Hemisphere Properties India Limited will be held on Wednesday, December 28, 2022 at 10.00 AM IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the businesses as set out in the notice. Notice of AGM along with Annual Report 2021-22 will be sent only through electronic mode to those shareholders whose e-mail addresses are registered with Depositories/Registrar & Share Transfer Agent (RTA) and would also be available on the Company's website at www.hpil.co.in and the website of the stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Further, the Company to provide e-voting facility through CDSL to all the eligible shareholders i.e. those members whose names appear on the cut-off date i.e. Wednesday, December 21, 2022 as beneficial owners in the records of NSDL and CDSL in respect of dematerialized shares and whose names would appear as Members in the Register of Members of the Company in case of physical shares. **The voting period would begin on Sunday, December 25, 2022 (9:00 a.m. IST) and end on Tuesday, December 27, 2022 (5:00 p.m. IST).** The book closure shall be from Thursday, December 22, 2022 to Wednesday, December 28, 2022, (both days inclusive) Members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Depositories/RTA may cast their votes through remote e-voting or through e-voting system during the meeting and shareholders are requested to refer the instructions for e-voting given in the Notice. Members who have not registered their e-mail addresses so far or want to change it, are requested to register/change the same with their Depository Participant /RTA, so as to receive all the communications electronically. Members who would like to ask questions during the AGM, may send their questions or may register themselves as a speaker by sending a request from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID/Folio number and mobile number at agm@hpil.co.in not later than 5:00 p.m., 20th December, 2022. The Company reserves the right to limit the number of members asking questions depending on the availability of time at the AGM, mentioned shareholders.

For Hemisphere Properties India Limited
 sd/-
Lubna
 (Company Secretary & Compliance Officer)

Date: 05.12.2022
 Place: Delhi

CLARIS LIMITED
 (formerly known as Altheon Enterprises Limited)
 Registered Office: Claris Corporate Headquarters, Near Parimal Railway Crossing, Ellisbridge, Ahmedabad - 380 006, Gujarat, India
 Tel. No.: +91-79-26563331. Email: investors@claris.in
 CIN: U11102GJ2013PLC076631

NOTICE OF THE NINTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Ninth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of CLARIS LIMITED (formerly known as Altheon Enterprises Limited) ("the Company") will be held on Wednesday, 28 December, 2022 at 3:00 PM through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice convening AGM.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs vide its circulars i.e. Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 and Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 (including any further amendment(s) or modification(s) thereto for the time being in force) ("MCA Circulars"), has permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the members, hence the AGM of the Company is held through VC/OAVM. The Company has sent the Annual Report along with the Notice convening AGM on Monday, December 5, 2022, through electronic mode to the Members whose email IDs are registered with the Company and / or Depositories in accordance with the MCA Circulars.

The Annual Report along with the Notice of AGM is also available on the website of CDSL (agency for providing the remote e-voting facility) i.e. www.evotingindia.com.

Pursuant to the provision of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any amendment(s) or modification(s) thereto for the time being in force), as amended from time to time and MCA Circulars, the Company is pleased to provide Members facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening AGM using "remote e-voting facility" prior to the date of AGM and "E-voting facility" during the AGM to its Members. The detailed procedure/instruction for e-voting is mentioned in the Notice convening AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Wednesday, 21 December, 2022 ("cut-off date").

The remote e-voting period commences on Saturday, 24 December, 2022 at 10:00 AM and ends on Tuesday, 27 December, 2022 at 5:00 PM. During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the Company and become a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to the helpdesk.evoting@cdsindia.com.

In case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com under help section or contact Mr. Rakesh Davi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Future, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or call on 022-23058542/43.

The Board of Directors have appointed M/s. SPANJ & Associates, Company Secretaries, as a Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting at AGM.

The Notice of AGM is available on the website of the CDSL's website www.evotingindia.com

For Claris Limited
 (formerly known as Altheon Enterprises Limited)
 sd/-
Kirit Janjaria
 Company Secretary & Compliance Officer

Date: December 5, 2022
 Place: Ahmedabad

SHARP INDIA LIMITED
 Regd Office : Gat No.686/4, Koregaon Bhima, Taluka : Shirur, Dist. Pune - 412216
 Phone No.: (02137) 670000/01/02 Fax No.: 02137- 252453
 Website : www.sharpindialimited.com | Email : chandraniil.belvalkar@sil.sharp-world.com
 CIN : L36759MH1985PLC036759

NOTICE OF 37TH AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Wednesday, 28th December 2022 at 12:00 noon (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022, 20/2020 dated May 05, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 14/2020 dated April 08, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read with SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, (collectively referred to as "relevant circulars") allowing without the physical presence of the members at common venue. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only to transact the business set out in the AGM notice.

The 37th Annual Report of the company containing notice of the 37th Annual General Meeting along with the explanatory statement, Director's Report, Auditor's Report, Audited Accounts etc. of the company for the financial year ended 31st March 2022 shall be sent by e-mail to all the members whose email addresses are registered with the Company or with their respective depository participants in accordance with relevant circulars. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule No. 20 of the Companies (Management & Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulation 2015, the items of the businesses to be transacted at the aforesaid 37th Annual General meeting of the Company be transacted by electronic voting (remote e-voting facility) through the e-voting services provided by Link Intime India Private Ltd (Insta vote).

a) The remote e-voting will commence on **Sunday, 25th December 2022 at 09:00 a.m. and ends on Tuesday, 27th December 2022 at 05:00 p.m.** IST. The e-voting module shall be disabled by Link Intime for voting thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. The company is providing the e-voting facility to all the members holding shares in physical or dematerialized form as of the **cut off date - Wednesday 21st December 2022.**

b) The members may note that a) remote e-voting module shall not be allowed beyond 5:00 p.m on 27th December 2022 and the same may be disabled by Link Intime and once the vote on a resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently, (detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the Annual General Meeting) b) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 37th AGM may participate in 37th AGM through VC/OAVM facility but will not be entitled to cast their vote again through e-voting system during 37th AGM. c) The members participating in 37th AGM and who have not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their votes through e-Voting system during 37th AGM, and d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by depositories as on the cut-off date only shall be able to avail the facility of remote e-voting, participating in the 37th AGM as well as e-voting during 37th AGM.

c) Any person who acquires Shares of the Company and become a Member of the Company after the dispatch of the 37th AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e., 21st December 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at umesh.sharma@linkintime.co.in. However if the member is already registered with Link Intime for e-voting, then existing user ID and password can be used for e-voting.

d) The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

e) Mr. Sridhar G. Mudaliar failing him Mrs. Meenakshi Deshmukh, Partners M/s. SVD & Associates, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and caste vote through the e-voting system during the meeting in fair and transparent manner.

f) A copy of the 37th AGM Notice and Annual Report for Financial Year 2021-22 is available on the website of the Company at www.sharpindialimited.com and on the website of stock exchange at www.bseindia.com and on the website of Link Intime www.linkintime.co.in.

g) In case the physical shareholder has not registered his / her / their email address with the Company / its RTA and not updated the Bank Account details, the following instructions to be followed:

- The shareholder may please forward a letter duly signed by him / her containing email ID, mobile number and Bank Account details along with self-attested copies of PAN and Aadhar Cards and cancelled cheque leaf of his / her bank account. In case cheque does not contain sole / first shareholder's pre-printed name then also attach 1st page of bank passbook.
- In case of Shares held in Dematerialised (Demat) mode, the shareholder may please contact their Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

In case of any queries regarding remote e-voting, related to login through Depository i.e. NSDL/CDSL, they may contact the respective helpdesk given below:

DHARANI FINANCE LIMITED
 Regd. Office PGP House, New No.59, Sterling road, Nungambakkam, Chennai 600 034
 CIN No: L65191TN1990PLC031952
 Tel No: 91-44-2825 4176;2825 4609;2831 1313;2820 7482 Fax No: 91-44-2823 2074
 Email ID: secretarial@dharanifinance.com Website: www.dharanifinance.com

NOTICE

32nd Annual General Meeting (AGM), E-Voting and Book Closure

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, the 25th December 2022 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business, as set in the notice of AGM, sent to the members by email.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020. Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 15, 2021 permitted the holding of the Annual General Meeting (AGM) through VC/OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. Accordingly, the AGM of the Company is also being held through VC to transact the business set out forth in the Notice of the AGM.

In compliance with above circulars, electronic copies of the notice of the AGM and annual report for the financial year 2021-22 has been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company / Depository participant(s) in the permitted mode on 25th November 2022. The requirements of sending physical copy of the Notice of the 32nd AGM and the Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA and SEBI Circular. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers by clicking the <https://investor.cameoindia.com> with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited or email to investor@cameoindia.com

Pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing remote e-voting facility (remote e-voting) to all its members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting platform provided by CDSL during the AGM (E-Voting). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of AGM.

Members are informed that:

- The cut-off date for the purpose of remote e-voting or at the AGM is 22nd December 2022.
- The remote e-voting shall commence on 26.12.2022 at 9.00 AM and shall end on 28.12.2022 at 5.00 PM after which e-voting platform shall be disabled by CDSL.
- Those members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to investor@cameoindia.com. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/her existing user id and password for casting their votes.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail addresses with the Company can obtain Notice of the AGM, Annual Report and/or login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including e-voting by sending scanned copy of (a) Copy of the signed request letter mentioning the folio number, name & address of the Member, (b) Self-attested copy of PAN card and (c) self-attested copy of any documents (e.g., Aadhar, Driving License, Identity Card, Passport in support of the address of the Member by email to investor@cameoindia.com

Members who would like to express their views/questions as a speaker at the meeting may pre-register themselves by sending a request from registered e-mail address mentioning their names, DP ID, Client ID/Folio Number, PAN and mobile number to secretarial@dharanifinance.com (5 days) prior to meeting. Only those members who have pre-registered themselves will be allowed to express their views/questions during the AGM. The company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

The notice of the 32nd AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 will also be made available on the Company's website at www.dharanifinance.com, stock exchange website at www.bseindia.com and CDSL's website at www.evoting.com

In case of any queries relating to e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or email to helpdesk.evoting@cdsindia.com Any grievance relating to e-voting facility, members may contact Mr. P. Marudharam, Manager, Cameo Corporate Services Limited, Subramaniam Building No.1 Club House Road, Chennai - 600002. Tel:044-28460390 or email: investor@cameoindia.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 read with applicable Rules and Regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd December 2022 to 29th December 2022 (both days inclusive) for annual closing and 32nd AGM.

Date: 06.12.2022
 Place: Chennai

By order of the Board For Dharani Finance Limited
Dr Palani G Periasamy
 Chairman

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED
 (A Government of India Enterprise)
 Reg. Office Address: Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan, Delhi, 110001
 Azad Road New Maunla, 110001
 CIN: L70101DL2005GOI132162
 Website: www.hpil.co.in
 Email: info@hpil.co.in

18TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

In view of prevailing Covid-19 pandemic and as per MCA and SEBI circulars of holding of AGM through VC/OAVM, notice is hereby given that the **18th Annual General Meeting (AGM) of the members of Hemisphere Properties India Limited will be held on Wednesday, December 28, 2022 at 10.00 AM IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the businesses as set out in the notice. Notice of AGM along with Annual Report 2021-22 will be sent only through electronic mode to those shareholders whose e-mail addresses are registered with Depositories/Registrar & Share Transfer Agent (RTA) and would also be available on the Company's website at www.hpil.co.in and the website of the stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Further, the Company to provide e-voting facility through CDSL to all the eligible shareholders i.e. those members whose names appear on the cut-off date i.e. Wednesday, December 21, 2022 as beneficial owners in the records of NSDL and CDSL in respect of dematerialized shares and whose names would appear as Members in the Register of Members of the Company in case of physical shares. **The voting period would begin on Sunday, December 25, 2022 (9:00 a.m. IST) and end on Tuesday, December 27, 2022 (5:00 p.m. IST).** The book closure shall be from Thursday, December 22, 2022 to Wednesday, December 28, 2022, (both days inclusive) Members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Depositories/RTA may cast their votes through remote e-voting or through e-voting system during the meeting and shareholders are requested to refer the instructions for e-voting given in the Notice. Members who have not registered their e-mail addresses so far or want to change it, are requested to register/change the same with their Depository Participant /RTA, so as to receive all the communications electronically. Members who would like to ask questions during the AGM, may send their questions or may register themselves as a speaker by sending a request from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID/Folio number and mobile number at agm@hpil.co.in not later than 5:00 p.m., 20th December, 2022. The Company reserves the right to limit the number of members asking questions depending on the availability of time at the AGM, mentioned shareholders.

अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

कांग्रेस ने राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस

अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकेतो को बिहार प्रदेश कांग्रेस समिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। सिंह ने मदन मोहन झा का स्थान लिया है। झा बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह पहले लोकसभा के सदस्य और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं।

भूमि विवाद पर सिर कलम किया, दोस्तों ने ली 'सेल्फी'

खूंटी (झारखंड), 5 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड के खूंटी जिले में 20 वर्षीय एक आदिवासी व्यक्ति ने भूमि विवाद को लेकर अपने 24 वर्षीय रिश्तेदार का सिर कलम कर दिया और आरोपी के दोस्तों ने कटे हुए सिर के साथ 'सेल्फी' ली। पुलिस ने सोमवार को बताया कि यह घटना हाल में हुई इलाके में हुई। मृतक के पिता दसाई मुंडा द्वारा दो दिसंबर को दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी समेत छह लोगों को रिवंवार को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिकी में 55 वर्षीय मुंडा ने कहा है कि

उसका बेटा कानू मुंडा एक दिसंबर को घर पर अकेला था, परिवार के बाकी के सदस्य खेतों में काम करने गए थे। घर लौटने पर ग्रामीणों ने बताया कि उनके भतीजे सागर मुंडा तथा उसके दोस्तों ने उनके बेटे का अपहरण कर लिया है। मुहुं पुलिस थाना के प्रभारी चूडामणि टुडु ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए खूंटी के अनुमंडल पुलिस स्टेशनवाली (एसडीपीओ) अमित कुमार की अगुवाई में पुलिस का एक दल गठित किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कानू का धड़ कुमांग गोपला वन में तथा सिर 15 किमी दूर दुलवा तुंगरी इलाके में बरामद किया गया। आरोपियों ने कटे हुए सिर के साथ मोबाइल से सेल्फी ली।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | **Union Bank of India**

क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली नॉर्थ, दूसरी मंजिल, फेज रोड-1, नई दिल्ली-110005
दूरभाष नं. 011-28754615, 28754644
ई-मेल आईडी : law.rodelhinorth@unionbankofindia.com

अचल सम्पत्तियों की विक्री हेतु विक्री सूचना

प्रातिभूत हित (प्रवतन) नियम, 2002 के नियम 8(4) के प्रावधानों के साथ पाठन व्यवस्था आस्तिया के प्रातिभूत हित एवं पुनर्निर्माण तथा प्रातिभूत हित प्रवतन अधिनियम, 2002 के तहत अचल/चल आस्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी विक्री सूचना

एतद्वारा उक्त सामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(री) एवं जमानती(यी) को सूचना दी जाती है कि प्रातिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रातिभूत चीजें वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका प्रस्तावक/नीतिक कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रातिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया था, नीचे वर्णित कर्जदार(री) एवं जमानती(यी) से यूनियन बैंक के निम्नलिखित बकायों की वसूली के लिए उसकी विक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ है वही है" आधार पर नीचे वर्णित तिथियों पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि भी नीचे उल्लिखित है :

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं पता	शाखा-दीर्घाती चौक, दूरभाष - 7063208696	बकाया राशि : रु. 27,77,114.64 तथा 11.05% वार्षिक की दर से भागी ब्याज
1.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	1. कर्जदार:- मेसर्स जेन इम्पेक्स, प्रोपराइटर: श्री जतिन बत्रा, ई-128, सेक्टर-5, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी दिल्ली-110039 2. श्री जतिन बत्रा पुत्र राकेश बत्रा, मकान नंबर: 93, पॉकेट-12, सेक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली-110085 3. श्री राकेश बत्रा, मकान नंबर: 93, पॉकेट-12, सेक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली-110085	

संपत्ति: पूरी तीसरी मंजिल (छात्र/टेरेस) के अधिकारों के साथ चार मंजिला निम्नलिखित प्रो होल्ड संपत्ति का हिस्सा, सम्पत्ति सं. 93, पॉकेट-12, क्षेत्रफल माप 60.00 वर्ग मीटर, सेक्टर -24 में, रोहिणी आवासीय योजना दिल्ली-110085 के लेआउट प्लान में स्थित, श्री जतिन बत्रा पुत्र श्री राकेश बत्रा के नाम पर।
सीमाएं:- पूर्व प्रवेश पश्चिम: प्लांट संख्या: 86, उत्तर: प्लांट संख्या: 94, दक्षिण: प्लांट संख्या: 92
ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 21.12.2022 को पूर्वाह्न 12 बजे से साय 5:00 बजे के बीच 10 मिनट स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्य रु. 49,00,000/- (केवल उन्चास लाख रुपये) जमा की जाने वाली धरोहर राशि - रु. 4,90,000/- (रुपये चार लाख नब्बे हजार मात्र) @ 10% बोली वृद्धि मूल्य-10,000/- (रुपये दस हजार मात्र)।

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं पता	शाखा - भोपाल, दूरभाष - 7471191739	बकाया राशि : रु. 20,17,557.56 (रु पचास लाख सत्तर हजार पांच सौ सत्तर रुपये छठ्ठ पैसे मात्र) + ब्याज + 31.10.2019 तक प्रत्येक प्रभार
2.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	1. राजेश कुमार शर्मा, प्रोपराइटर-मेसर्स अर्णव ट्रेडिंग कम्पनी एच -283, पहली मंजिल, ब्लॉक-एच, सेक्टर -12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 2. राजेश कुमार शर्मा, प्रोपराइटर-मेसर्स अर्णव ट्रेडिंग कम्पनी ई-398, सेक्टर-11, प्रताप विहार गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।	

संपत्ति: एच-283, पहली मंजिल, ब्लॉक-एच सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 21.12.2022 को 12.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य रु. 29,00,000/- (रुपये उन्तीस लाख मात्र) जमा की जाने वाली धरोहर राशि - रु. 2,90,000/- (रुपये दो लाख नब्बे हजार मात्र) @ 10% संचिदा वृद्धि मूल्य-10000/- (रुपये दस हजार मात्र).

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं पता	रोहिणी सेक्टर-16 शाखा, दूरभाष - 011-27573662	बकाया देय : रु. 18,33 लाख तथा 18.07.2019 से ब्याज एवं अन्य प्रभार
3.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	कर्जदार : कानिनी गुप्ता एवं प्रवेश गुप्ता, निवासी: म.न. 17/10073, टॉप फ्लोर, गली नं. 3जे, वेस्ट गोरखा बाग, सामने विक्रम बंदी, शाहदरा, दिल्ली-110032	

संपत्ति संख्या 1. संपत्ति संख्या II/164, अपर ग्राउंड फ्लोर, छैटा गुम्हाड़ा वाली गली, जैन साइजि के पास, तेलाबाग, शाहदरा, दिल्ली-110032
संपत्ति की सीमाएं: पूर्व: अन्य संपत्ति, पश्चिम: गली, उत्तर: अन्य प्लांट और दक्षिण: संपत्ति का हिस्सा
ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 21.12.2022 को 12.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य : रु. 13,68,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 1,37,000/- 10% की दर से, संचिदा वृद्धि राशि : रु. 10,000/-

क्र.सं.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	कर्जदार : रोहिणी सावन एवं हरेश्वर ठुकराम मारवाज, फ्लैट सं. जी-1, बी-1/120, भूतल, डीएलएफ दिलशाद एक्स. II, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005, कैलाश पुत्र किशन आर्य : 53-54, पॉकेट-8, सेक्टर-23, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	बकाया देय : रु. 15,62,865.00 (रु पचास लाख सात हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) तथा उत्तर पर ब्याज एवं अन्य प्रभार
4.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	कर्जदार : अमिल कुमार झा एवं अर्चना झा पत्नी अमिल कुमार झा, निवासी: म.न. डी-259/501, प्रथम मंजिल, दिल्ली-110094	

सम्पत्ति सं. 1. फ्लैट सं. जी-1, बी-1/120, भूतल, डीएलएफ दिलशाद एक्स. II, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005, उत्तर : सम्पत्ति बी/121, दक्षिण : सम्पत्ति बी/119, पूर्व : सम्पत्ति बी/113, पश्चिम : रु. 21.12.2022 को 12.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य : रु. 12,00,000/- (रुपये बारह लाख मात्र), जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 1,20,000/- (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र) 10% की दर से, संचिदा वृद्धि मूल्य : रु. 12,000/- (रुपये बारह हजार मात्र)

क्र.सं.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	कर्जदार : अमिल कुमार झा एवं अर्चना झा पत्नी अमिल कुमार झा, निवासी: म.न. डी-259/501, प्रथम मंजिल, दिल्ली-110094	बकाया देय : रु. 35,48,299/- तथा उत्तर पर ब्याज एवं अन्य प्रभार
5.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	कर्जदार : अमिल कुमार झा एवं अर्चना झा पत्नी अमिल कुमार झा, निवासी: म.न. डी-259/501, प्रथम मंजिल, दिल्ली-110094	

सम्पत्ति सं. 1. फ्लैट सं. ई-670, गली नं. 3, एनआरडी फ्लैट, तीसरी मंजिल ब्रह्म के अधिकार सहित, मस्जिद बाली गली, बान्स्वर, शाहदरा, दिल्ली-110032, सम्पत्ति की सीमाएं : पूर्व : गली 15 फीट चौड़ी, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति, उत्तर : अन्य सम्पत्ति तथा दक्षिण : अन्य सम्पत्ति।
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.12.2022 को 12.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य : रु. 8,38,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 84,000/- 10% की दर से, संचिदा वृद्धि मूल्य-8,400/-

क्र.सं.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	कर्जदार : अमिल कुमार झा एवं अर्चना झा पत्नी अमिल कुमार झा, निवासी: म.न. डी-259/501, प्रथम मंजिल, दिल्ली-110094	बकाया देय : रु. 35,48,299/- तथा उत्तर पर ब्याज एवं अन्य प्रभार
6.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	कर्जदार : अमिल कुमार झा एवं अर्चना झा पत्नी अमिल कुमार झा, निवासी: म.न. डी-259/501, प्रथम मंजिल, दिल्ली-110094	

सम्पत्ति सं. 1. सम्पत्ति सं. 27/22, दूसरी मंजिल, खसरा नं. 316, गली नं. 12, बजानपुर, दिल्ली-110053, सम्पत्ति की सीमाएं : पूर्व : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : सम्पत्ति बी-272, उत्तर : गली नं. 12 एवं दक्षिण : अन्य सम्पत्ति। ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.12.2022 को 12.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य : रु. 14,33,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 1,44,000/- 10% की दर से, संचिदा वृद्धि मूल्य-14,300/-

क्र.सं.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	कर्जदार : श्रीमती प्रीति नेहा और श्री चरणजीत सिंह संपत्ति संख्या 178-ए /III, पहली मंजिल जीवन नगर आश्रम, ई-1100114, श्री अमिल कुमार 178-ए भूतल मध्य भाग जीवन नगर सरकारी स्कूल के पास, नई दिल्ली 110014	बकाया देय : रु. 26.72 लाख (रुपये छब्बीस लाख बत्तर हजार मात्र) तथा भावी ब्याज
7.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	कर्जदार : श्रीमती प्रीति नेहा और श्री चरणजीत सिंह संपत्ति संख्या 178-ए /III, पहली मंजिल जीवन नगर आश्रम, ई-1100114, श्री अमिल कुमार 178-ए भूतल मध्य भाग जीवन नगर सरकारी स्कूल के पास, नई दिल्ली 110014	

संपत्ति संख्या 1. संपत्ति संख्या 178-ए / III, प्रथम तल जीवन नगर आश्रम, नई दिल्ली 11001 का समस्त भाग, सीमाएं : उत्तर: संपत्ति संख्या 178-ए/बी, पूर्व: संपत्ति संख्या 178ए/बी, पश्चिम: अन्य संपत्ति ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.12.2022 को 12.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य : रु. 12,25,000/- (रुपये बारह लाख पचीस हजार मात्र), जमा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 1,22,000/- (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र) 10% की दर से, संचिदा वृद्धि मूल्य : रु. 12,250/- (रुपये बारह हजार दो सौ पचास मात्र)

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं पता	शाखा-होल्दम्बी, दूरभाष - 8571838312, 8800266824	बकाया राशि : रु. 5,71,24,100 (रु पचास लाख इकहत्तर हजार दो सौ इकतालीस एवं पचास पैसे मात्र) 31.01.2020 तक तथा अद्यतन ब्याज, लागत एवं प्रभार आदि।
8.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	श्री अरवनी कुमार शर्मा पुत्र तीर्थधर राम शर्मा, फ्लैट नंबर 464, दूसरी मंजिल, पॉकेट 11, सेक्टर ९६, नरैला दिल्ली-110040	

संपत्ति: डीडीए जस्ता फ्लैट नंबर 464, दूसरी मंजिल, पॉकेट 11, सेक्टर ए 6, नरैला दिल्ली-110040, सीमाएं: पूर्व:- नीचे खुला, पश्चिम:- मांग, उत्तर:- प्रवेश, दक्षिण:- फ्लैट नंबर 465 ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 21.12.2022 को 12.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित आरक्षित मूल्य रु. 6,00,000/- (रुपये छः लाख मात्र) जमा की जाने वाली धरोहर राशि - रु. 60,000/- (रुपये साठ हजार मात्र) @ 10% संचिदा वृद्धि मूल्य-10000/- (रुपये दस हजार मात्र).

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं पता	शाखा-होल्दम्बी, दूरभाष - 8571838312, 8800266824	बकाया राशि : रु. 6,33,409.27 तिथि 31.12.2021 तक तथा अद्यतन ब्याज, लागत एवं प्रभार आदि।
9.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	कर्जदार: श्री देवेन्द्र सिंह और श्रीमती रजनी देवी (गारंटर) (दोनों) निवासी सी-16, प्लांट नंबर 52, फर्स्ट फ्लोर, ब्लॉक सी, मुख्य राम गार्डन, विलक नगर, दिल्ली-110018 इसके अलावा:- फ्लैट नंबर 225, ग्राम घोसिया, आंचल चौपाल, नरैला, दिल्ली-110040	

संपत्ति: फ्लैट नंबर 235, तीसरी मंजिल (जस्ता श्रेणी के तहत) पॉकेट नंबर 11, सेक्टर ए 6, नरैला, दिल्ली-110040 को संपत्ति का समस्त भाग। सीमाएं: पूर्व:- नीचे खुला, पश्चिम:- नीचे खुला, उत्तर:- प्रवेश/मांग, दक्षिण:- नीचे खुला
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.12.2022 को 12.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य रु. 4,65,000/- (रुपये चार लाख पैंसठ हजार मात्र) जमा की जाने वाली धरोहर राशि - रु. 46,500/- (रुपये छियालीस हजार पांच सौ मात्र) संचिदा वृद्धि मूल्य- 10000 (रुपये दस हजार मात्र)

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं पता	शाखा-होल्दम्बी, दूरभाष - 8571838312, 8800266824	बकाया राशि : रु. 6,33,409.27 तिथि 31.12.2021 तक तथा अद्यतन ब्याज, लागत एवं प्रभार आदि।
10.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	श्रीमती कुलदीप कौर पत्नी श्री इंद्रजीत सिंह (आवेदक) श्री इंद्रजीत सिंह धंजाल मुखारी श्री रघुनंदन सिंह (गारंटर) (दोनों) निवासी सी-16, प्लांट नंबर 52, फर्स्ट फ्लोर, ब्लॉक सी, मुख्य राम गार्डन, विलक नगर, दिल्ली-110018 इसके अलावा दोनों निवासी:- फ्लैट नंबर 466, दूसरी मंजिल, डीडीए जस्ता फ्लैट, पॉकेट नंबर 11, सेक्टर ए6, नरैला, दिल्ली-110040	

संपत्ति: श्रीमती कुलदीप कौर पत्नी इंद्रजीत सिंह के नाम पर फ्लैट नंबर 466, दूसरी मंजिल (जस्ता श्रेणी के तहत) पॉकेट नंबर 11, सेक्टर ए 6, नरैला, दिल्ली-110040 सहित का समस्त भाग।
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.12.2022 को 12.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य रु. 6,00,000/- (रुपये छः लाख मात्र) जमा की जाने वाली धरोहर राशि - रु. 60,000/- (रुपये साठ हजार मात्र), संचिदा वृद्धि मूल्य रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र)

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं पता	शाखा-होल्दम्बी, दूरभाष - 8571838312, 8800266824	बकाया राशि : रु. 16,07,373.49 तथा 10.55.2019 से अद्यतन ब्याज, लागत एवं प्रभार आदि।
11.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	कर्जदार : श्री मनिन्द्र कुमार, फ्लैट नंबर 176, पॉकेट नंबर 4, सेक्टर ए-10, नरैला, दिल्ली-110040	

संपत्ति: श्री मनिन्द्र कुमार के नाम पर फ्लैट नंबर 176, 3अरा तल पॉकेट नंबर 4, सेक्टर ए-10, नरैला, दिल्ली-110040 को संपत्ति का समस्त भाग। सीमाएं: पूर्व: नीचे खुला, पश्चिम:- नीचे खुला, उत्तर: प्रवेश और फ्लैट नंबर 172 के सामने, दक्षिण:- नीचे खुला ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.12.2022 को 12.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य रु. 16,50,000/- (रुपये सोलह लाख पचास हजार मात्र) जमा की जाने वाली धरोहर राशि - रु. 1,65,000/- (रुपये एक लाख पैंसठ हजार मात्र), संचिदा वृद्धि मूल्य रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र)

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं पता	शाखा - शालीमार बाग, दूरभाष - 9988038300, 7678256723	बकाया राशि : रु. 6,80,578.43 तथा अद्यतन ब्याज, लागत एवं प्रभार आदि।
12.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	मेसर्स एस जो एचो इंटरनेशनल (कर्जदार), 241,242, जी टी कन्वलय रोड, बकोली, दिल्ली (क्रिएए पर)	

संपत्ति: श्री मनिन्द्र कुमार के नाम पर फ्लैट नंबर 176, 3अरा तल पॉकेट नंबर 4, सेक्टर ए-10, नरैला, दिल्ली-110040 को संपत्ति का समस्त भाग। सीमाएं: पूर्व: नीचे खुला, पश्चिम:- नीचे खुला, उत्तर: प्रवेश और फ्लैट नंबर 172 के सामने, दक्षिण:- नीचे खुला ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.12.2022 को 12.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य रु. 16,50,000/- (रुपये सोलह लाख पचास हजार मात्र) जमा की जाने वाली धरोहर राशि - रु. 1,65,000/- (रुपये एक लाख पैंसठ हजार मात्र), संचिदा वृद्धि मूल्य रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र)

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं पता	शाखा-होल्दम्बी, दूरभाष - 8571838312, 8800266824	बकाया राशि : रु. 28,07,2021 तक रु. 2,79,95,302.98 (रुपये दो करोड़ उन्पत्तीस लाख पचास हजार तीन सौ दो एवं अठ्ठान्पत्तीस पैसे मात्र) तथा 28.07.2021 से अद्यतन ब्याज, लागत तथा प्रभार आदि
13.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	मेसर्स एस जो एचो इंटरनेशनल (कर्जदार), 241,242, जी टी कन्वलय रोड, बकोली, दिल्ली (क्रिएए पर)	

सम्पत्ति : पहली मंजिल पर आवासीय फ्लैट, बीडब्ल्यू-95बी, शालीमार बाग, दिल्ली में श्री सुशील कुमार गर्ग पुत्र श्री मंगू राम के स्वामित्व में। क्षेत्रफल 1345 वर्ग फीट। उत्तर में: प्रवेश / सीमा, फ्लैट नंबर 96 बी, दक्षिण में: गली / पार्क, पूर्व में: फ्लैट नंबर 94 बी, पश्चिम में: साइड गली / पार्क ई-नीलामी की तिथि और समय: 21.12.2022 को पूर्वाह्न 12.00 बजे से साय 05:00 बजे के बीच 10 मिनट असीमित स्वतः विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्य रु. 2,40,00,000/- (रुपये दो करोड़ चालीस लाख मात्र) जमा धरोहर राशि - रु. 24,00,000/- (रुपे चौबीस लाख मात्र) 10% संचिदा वृद्धि मूल्य-25,000/- (रुपये पचीस हजार मात्र)।

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं पता	शाखा - होल्दम्बी, दूरभाष - 9285160002, 9716424278	बकाया राशि : रु. 22,86,537/- तिथि 31.03.2022 तक तथा भावी ब्याज, लागत एवं अन्य
13.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	कर्जदार:- सुशील गर्वन, फ्लैट नंबर 124 विक्रम एन्क्लेव, ग्राम पत्नीला लोनी गाजियाबाद, श्री अरसम राय (साह-आवेदक), फ्लैट नं जीएफ 2 एलआईजी प्लॉट नं 124 विक्रम एन्क्लेव ग्राम पत्नीला लोनी गाजियाबाद	

संपत्ति: फ्लैट नंबर जीएफ 2 एलआईजी प्लान रूपफ राइट प्लॉट नंबर 124 विक्रम एन्क्लेव, गाजियाबाद उ.प्र. पूर्व: सड़क 30 फीट, पश्चिम: प्लांट, उत्तर: प्लांट, दक्षिण : प्लांट 123
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.12.2022 को 12.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य रु. 12,04,000/- (रुपये बारह लाख चार हजार मात्र) जमा की जाने वाली धरोहर राशि - रु. 1,20,400/- (रुपये एक लाख बीस हजार चार सौ मात्र), संचिदा वृद्धि मूल्य : रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र).

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं पता	शाखा - होल्दम्बी, दूरभाष - 9285160002, 9716424278	बकाया राशि : रु. 22,86,537/- तिथि 31.03.2022 तक तथा भावी ब्याज, लागत एवं अन्य
13.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	कर्जदार:- सुशील गर्वन, फ्लैट नंबर 124 विक्रम एन्क्लेव, ग्राम पत्नीला लोनी गाजियाबाद, श्री अरसम राय (साह-आवेदक), फ्लैट नं जीएफ 2 एलआईजी प्लॉट नं 124 विक्रम एन्क्लेव ग्राम पत्नीला लोनी गाजियाबाद	

सम्पत्ति : पहली मंजिल पर आवासीय फ्लैट, बीडब्ल्यू-95बी, शालीमार बाग, दिल्ली में श्री सुशील कुमार गर्ग पुत्र श्री मंगू राम के स्वामित्व में। क्षेत्रफल 1345 वर्ग फीट। उत्तर में: प्रवेश / सीमा, फ्लैट नंबर 96 बी, दक्षिण में: गली / पार्क, पूर्व में: फ्लैट नंबर 94 बी, पश्चिम में: साइड गली / पार्क ई-नीलामी की तिथि और समय: 21.12.2022 को पूर्वाह्न 12.00 बजे से साय 05:00 बजे के बीच 10 मिनट असीमित स्वतः विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्य रु. 2,40,00,000/- (रुपये दो करोड़ चालीस लाख मात्र) जमा धरोहर राशि - रु. 24,00,000/- (रुपे चौबीस लाख मात्र) 10% संचिदा वृद्धि मूल्य-25,000/- (रुपये पचीस हजार मात्र)।

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं पता	शाखा - होल्दम्बी, दूरभाष - 9285160002, 9716424278	बकाया राशि : रु. 22,86,537/- तिथि 31.03.2022 तक तथा भावी ब्याज, लागत एवं अन्य
13.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	कर्जदार:- सुशील गर्वन, फ्लैट नंबर 124 विक्रम एन्क्लेव, ग्राम पत्नीला लोनी गाजियाबाद, श्री अरसम राय (साह-आवेदक), फ्लैट नं जीएफ 2 एलआईजी प्लॉट नं 124 विक्रम एन्क्लेव ग्राम पत्नीला लोनी गाजियाबाद	

संपत्ति: फ्लैट नंबर जीएफ 2 एलआईजी प्लान रूपफ राइट प्लॉट नंबर 124 विक्रम एन्क्लेव, गाजियाबाद उ.प्र. पूर्व: सड़क 30 फीट, पश्चिम: प्लांट, उत्तर: प्लांट, दक्षिण : प्लांट 123
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 21.12.2022 को 12.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित। आरक्षित मूल्य रु. 12,04,000/- (रुपये बारह लाख चार हजार मात्र) जमा की जाने वाली धरोहर राशि - रु. 1,20,400/- (रुपये एक लाख बीस हजार चार सौ मात्र), संचिदा वृद्धि मूल्य : रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र).

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं पता	शाखा - होल्दम्बी, दूरभाष - 9285160002, 9716424278	बकाया राशि : रु. 22,86,537/- तिथि 31.03.2022 तक तथा भावी ब्याज, लागत एवं अन्य
13.	कर्जदार तथा जमानती/यी के नाम	कर्जदार:- सुशील गर्वन, फ्लैट नंबर 124 विक्रम एन्क्लेव, ग्राम पत्नीला लोनी गाजियाबाद, श्री अरसम राय (साह-आवेदक), फ्लैट नं जीएफ 2 एलआईजी प्लॉट नं 124 विक्रम एन्क्लेव ग्राम पत्नीला लोनी गाजियाबाद	

सम्पत्ति : पहली मंजिल पर आवासीय फ्लैट, बीडब्ल्यू-95बी, शालीमार बाग, दिल्ली में श्री सुशील कुमार गर्ग पुत्र श्री मंगू राम के स्वामित्व में। क्षेत्रफल 1345 वर्ग फीट। उत्तर में: प्रवेश / सीमा, फ्लैट नंबर 96 बी, दक्षिण में: गली / पार्क, पूर्व में: फ्लैट नंबर 94 बी, पश्चिम में: साइड गली / पार्क ई-नीलामी की तिथि और समय: 21.12.2022 को पूर्वाह्न 12.00 बजे से साय 05:00 बजे के बीच 10 मिनट असीमित स्वतः